

सिंह, श्री अजय

इंडियन नेशनल कांग्रेस

निर्वाचन क्षेत्र- चुरहट (76)



पिता का नाम-	स्व. श्री अर्जुन सिंह
जन्म तिथि-	23 सितम्बर, 1955
जन्म स्थान-	इलाहाबाद
वैवाहिक स्थिति-	विवाहित
पत्नी-	श्रीमती सुनीति सिंह
संतान-	1 पुत्र ,2 पुत्रियाँ
शैक्षणिक योग्यता-	एम.ए. (अर्थशास्त्र)
व्यवसाय-	कृषि
अभिरुचि-	पर्यटन, सामाजिक कार्य, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास
स्थायी पता-	ग्राम व पोस्ट-साड़ा, तह.-चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.) दूरभाष-272006, 2555355 मोबाइल-9425013954 ई- मेल-ajay.singh@mpvidhansabha.nic.in
स्थानीय पता-	सी-19, शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.)दूरभाष-2572284

सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन का संक्षिप्त विकास क्रम-

1971 में एन.सी.सी. के बेस्ट केडेट के रूप में पुरस्कृत. 1972 में अन्तर स्कूल वाद-विवाद प्रतियोगिता में बेस्ट डिबेटर के रूप में पुरस्कृत. 1971-72 में कैम्पियन स्कूल के कैप्टन. कैम्पियन ओल्ड ब्वायज, भोपाल के पूर्व अध्यक्ष. श्रीराम कालेज ऑफ कामर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.ए. (अर्थ शास्त्र) आनर्स तथा 1976-77 में भोपाल विश्वविद्यालय से एम.ए. (अर्थशास्त्र) में गोल्ड मेडल. जिला कांग्रेस (इ) सेवादल, सीधी के पूर्व अध्यक्ष. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य. मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी (इ) के पूर्व महामंत्री तथा उपाध्यक्ष. 1985 के उप चुनाव में आठवीं एवं 1991 के उप चुनाव में नौवीं विधान सभा के सदस्य निर्वाचित. अमेरिका, जर्मनी, आस्ट्रिया तथा यू.के. सहित तीस देशों की यात्रा. 1998 में ग्यारहवीं विधान सभा के सदस्य निर्वाचित एवं मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा पर्यटन एवं संस्कृति विभाग तदनंतर पंचायत एवं ग्रामीण विकास रहे. सन् 2003 में बारहवीं विधान सभा के सदस्य निर्वाचित. म.प्र. कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष. सन् 2008 में तेरहवीं विधान सभा के सदस्य निर्वाचित एवं दिनांक 15 अप्रैल, 2011 से 10 दिसंबर, 2013 तक नेता प्रतिपक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा रहे.

सन् 2013 में छठी बार विधान सभा सदस्य निर्वाचित.